

पत्रांक : ----- / यूपीडा/ 925/ 2018

दिनांक: 01 सितंबर 2018

## प्रेस नोट

### पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निर्माणपूर्व प्रक्रिया तेज़ करने हेतु बैठक

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की निर्माणपूर्व गतिविधियों की समीक्षा हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिनांक 01-09-2018 को पूर्वान्ह 11.00 बजे एक बैठक आहूत की गई। बैठक में यूपीडा मुख्यालय के अधिकारियों के अतिरिक्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा यूपीडा के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा एक्सप्रेस-वे का निर्माण समय से पूरा करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से यह अनुरोध किया गया कि जब तक परियोजना स्थल पर अथवा आसपास जलभराव की समस्या है तब तक निर्माणपूर्व कार्य जैसे डिज़ाइन, जियोटेक्निकल अध्ययन, सर्वे, अवरोधों के चिन्हिकरण, परियोजना पर स्टाफ की नियुक्ति तथा आफिस खोलने का कार्य इत्यादि पूरा कर लिया जाए। इसके लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि वे एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर लें जिसमें परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का पूरा खाका हो।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिये गए कि कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि, क्षेत्राधिकारी, भूमि अधिग्रहण से संबन्धित अधिकारीगणों की संयुक्त टीम द्वारा शीघ्र ही walkover survey किया जाए तथा अवरोधों के चिन्हिकरण, ROW इंगित करने वाले पथरों की स्थिति, मृदा के सैंपल इकट्ठा करने इत्यादि का कार्य करके एक संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 10.9.18 तक यूपीडा को प्रेषित कर दी जाए।

परियोजना हेतु लगभग 90% से अधिक भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। अवशेष भूमि के अधिग्रहण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि शीघ्र ही समस्त संबन्धित जिलाधिकारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देश निर्गत किए जाएंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यह भी निर्देश दिये गए कि मिट्टी एवं बालू के खनन हेतु स्रोतों का पता लगाया जाए ताकि मिट्टी की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति वहाँ से की जा सके। फ्लाई ऐश हेतु पावर प्लांट में फ्लाई ऐश की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने की औपचारिकताओं को भी सूचित करने हेतु निर्देश दिए गए।

नोट – विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट [www.upeida.in](http://www.upeida.in) का अवलोकन करें।